

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2016/माघ 1, 1937

No. 169]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016/MAGHA 1, 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2016

का.आ. 193(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3609(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना के क्र. सं. 16 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :—

“ 16. श्री ब्रजेन्द्र कुमार राय,
भारतीय मजदूर संघ,
विश्वकर्मा भवन,
डाकघर परासिया,
जिला – छिदवाड़ा (म. प्र.)
पिन कोड – 480441 । ”

[फा. सं. 20/210/3/2012-पी आर आई डब्ल्यू-III]

राजेश कुमार सिन्हा, सयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 3609(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th January, 2016

S.O. 193(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), read with paragraph 4 of the Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948 the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, *vide* number S.O. 3609(E), dated the 10th December, 2013 published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India.

In the said notification for serial number 16 and the entries relating thereto the following entries shall be substituted, namely:—

"16. Shri Brajendra Kumar Ray,
Bharatiya Mazdoor Sangh,
Vishwakarma Bhawan,
P.O. Parasia,
Distt. Chhindwara (M.P) Pin code-480441."

[F. No. 20/210/3/2012-PRIW-III]

RAJESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 3609(E), dated the 10th December, 2013.